

लोक सभा चुनावों से सम्बन्धित दस्तावेजों का मुम हो जाना

3327. श्री रामावतार शास्त्री :

श्री पी० के० कोडियन :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हुए लोक सभा चुनावों से संबंधित दस्तावेज पुराना सचिवालय, दिल्ली से जून के पहले सप्ताह में गायब पाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन दस्तावेजों का ब्यौर क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

National Alcohol Policy for Growth and Development of Alcohol Based Industries

3328. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether the All India Alcohol Based Industries Association has

urged upon Government to evolve a National Alcohol Policy for growth and development of Alcohol Based Industries in the country;

(b) what is the total production of Alcohol in the country as compared to the available quantities of molasses during the last three years.

(c) whether any Molasses of Alcohol has been exported during the last three years, if so the value and quantity thereof during the last three years; and

(d) what is the Molasses handling capacity of distilleries in India for production of Alcohol.

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) Yes, Sir.

(b) The total production of alcohol and molasses during the last three years was as under:—

	Alcohol (in lakh litres)	Molasses (in lakh tonnes)
1976-77 (Dec. 76-Nov. 77)	4452.300	22.15
1977-78 (Dec. 77-Nov. 78)	5000.000	30.79
1978-79 (Dec. 78-Nov. 79)	4379.015	25.80

(c) The following quantities of alcohol and molasses were exported during the last three financial years:

	Alcohol		Molasses	
	Tonnes	FOB value Rs./lakhs	Tonnes	FOB value Rs./lakhs
1977-78	Nil	Nil	21,407	62
1978-79	15,416	278.0	1,63,337	691
1979-80	8,749	178.0	4,31,300	2659

(d) The combined installed capacity of distilleries in India is approximately 6655 million litres.